

עֵל-	וּשְׁבוּ	מֵעֲלֵיכֶם	וּמִרְעַ	הַרְעָה	מִדְרָבּוֹ	אִישׁ	נָא	שׁוּבוּ-	לְאֹמֵר	5
पर-	और-बसो	तुम्हारे-कामों-की	और-से-बुराई	बुरे	अपने-मार्ग-से	हरेक	कृपया	लौटो-	कहते-हुए	
	H3427	H4611	H7455		H1870	H0376	H4994	H7725	H0559	
עוֹלָם:	וְעַד-	עוֹלָם	לְמוֹן-	וְלְאֲבוֹתֵיכֶם	לְכֶם	יְהוָה	נָתַן	אֲשֶׁר	הָאָדָמָה	
अनन्तकाल	और-तक-	अनन्तकाल	से-	और-तुम्हारे-पूर्वजों-को	तुम्हें	यहोवा-ने	दी-है	जो	भूमि	
	H5769	H5704	H5769	H0001		H3068	H5414		H0127	

उन नबियों ने कहा, “अपने जीवन को बदलो। उन बुरे कामों को करना छोड़ो। यदि तुम बदल जाओगे, तो तुम उस भूमि पर वापस लौट और रह सकोगे जिसे यहोवा ने तुम्हें और तुम्हारे पूर्वजों को बहुत पहले दी थी। उसने यह भूमि तुम्हें सदैव रहने को दी।

לָהֶם	וְלִהְיוּתָנֹת	לְעִבְדָּם	אֲחֵרִים	אֱלֹהִים	אֲחֵרִי	תֵּלְכוּ	וְאֵל-	6
उन्हें	और-दण्डवत्-करने-के-लिए	सेवा-करने-के-लिए-उनकी	दूसरों-के	देवताओं	पीछे	चली	और-मत-	
	H7812	H5647	H0312	H0430		H3212	H0408	
	לְכֶם:	אָרַע	וְלֹא	יִדְיֶכֶם	בְּמַעֲשֵׂה	אוֹתֵי	תִּכְעִסוּ	וְלֹא-
	तुम्हें	हानि-पहुँचेगी	और-नहीं	अपने-हाथों-के	कार्यों-से	मुझे	क्रोधित-करो	और-नहीं-
			H3808	H3027	H4639	H0853	H3707	H3808

अन्य देवताओं का अनुसरण न करो। उनकी सेवा या उनकी पूजा न करो। उन मूर्तियों की पूजा न करो जिन्हें कुछ लोगों ने बनाया है। वह मुझे तुम पर केवल क्रोधित करता है। यह करना तुम्हें केवल चोट पहुँचाता है।”

בְּמַעֲשֵׂה	(הַכְּעִסוּנִי)	הַכְּעִסוּנִי	לְמַעַן	יְהוָה	נֹאמֶ-	אֵלֵי	שְׁמַעְתָּם	וְלֹא-	7
कार्यों-से	क्रोधित-करो-मुझे	क्रोधित-करो-मुझे	ताकि	यहोवा-का	वचन-	मेरी	सुना-तुमने	और-नहीं-	
	H4639	H3707	H3707	H4616	H3068	H5002	H0413	H8085	H3808
						ס	לְכֶם:	לָרַע	יִדְיֶכֶם
						—	तुम्हें	हानि-के-लिए	अपने-हाथों-के
									H3027

“किन्तु तुमने मेरी अनसुनी की।” यह सन्देश यहोवा का है। “तुमने उन मूर्तियों की पूजा की जिन्हें कुछ लोगों ने बनाया और उसने मुझे क्रोधित किया और उसने तुम्हें केवल चोट पहुँचाई।”

יְבָרֵךְ:	אֶת-	שְׁמַעְתָּם	לֹא-	אֲשֶׁר	יֵעַן	צְבָאוֹת	יְהוָה	אָמַר	כֹּה	לְכֹן	8
मेरे-वचनों-को	को-	सुना-तुमने	नहीं-	जो	इसलिए-कि	सेनाओं-का	यहोवा	कहता-है	यों	इसलिए	
	H1697	H0853	H8085	H3808	H3282		H3068	H0559	H3541		

अतः सर्वशक्तिमान यहोवा यह कहता है, “तुमने मेरे सन्देश को अनसुना किया है।

נְבוּכַדְרֶאצַּר	וְאֵל-	יְהוָה	נֹאמֶ-	צְפוֹן	מִשְׁפָּחוֹת	כָּל-	אֶת-	וְלִקְחָתִי	שָׁלַח	הִנְנִי	9
नबूकदनेस्सर	और-को-	यहोवा-का	वचन-	उत्तर-के	कुलों-को	सब-	को-	और-लूँगा	भेजता-हूँ	देखो-मैं	
	H5019	H0413	H3068	H5002	H6828	H4940	H3605	H0853	H3947	H7971	H2009
כָּל-	וְעַל	יְשָׁבִיהָ	וְעַל-	הַאָרֶץ	עַל-	וְהִבְאֵתִים	עֲבָדִי	עֲבָדִי	בְּבָבֶל	מֶלֶךְ-	
सब-	और-पर	उसके-निवासियों	और-पर-	इस पृथ्वी	पर-	और-लाऊँगा-उन्हें	मेरे-दास	मेरे-दास	बाबेल-के	राजा-	
	H3605	H3427		H2063	H0776	H0935	H5650	H0894	H4428		
וְלִקְחָתִי	וְלִשְׂרָקָהּ	לְשָׂמָה	וְשָׂמָתִים	וְהִתְרַמְּתִים	וְהִתְרַמְּתִים	סָבִיב	הָאֵלֶּה	הַגּוֹיִם			
और-खंडहरों-को	और-सीटी-को	वीरानी-को	और-बनाऊँगा-उन्हें	और-नाश-करूँगा-उन्हें	और-नाश-करूँगा-उन्हें	चारों-ओर	इन	जातियों			
	H2723	H8322	H8047			H5439	H0428				
								עוֹלָם:			
								सदा-के			
								H5769			

अतः मैं उत्तर के सभी परिवार समूहों को शीघ्र बुलाऊँगा।” यह सन्देश यहोवा का है। “मैं शीघ्र ही बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर को भेजूँगा। वह मेरा सेवक है। मैं उन लोगों को यहूदा देश और यहूदा के लोगों के विरुद्ध बुलाऊँगा। मैं उन्हें तुम्हारे चारों ओर के पड़ोसी राष्ट्रों के विरुद्ध भी लाऊँगा। मैं उन सभी देशों को नष्ट करूँगा। मैं उन देशों को सदैव के लिये सूनी मरुभूमि बना दूँगा। लोग उन देशों को देखेंगे और जिस बुरी तरह से वे नष्ट हुए हैं उस पर सीटी बजाएँगे।

10
 וְהָאֲבָרְתִי וְהָאֲבָרְתִי מֵהֶם קוֹל אַוָּאֲרָא שְׁשׁוֹן וְקוֹל וְקוֹל וְקוֹל וְקוֹל וְקוֹל וְקוֹל וְקוֹל וְקוֹל וְקוֹל
 और-नाश-करूँगा उनसे आवाज़ आनन्द-की और-आवाज़ और-आवाज़ और-आवाज़ और-आवाज़ और-आवाज़ और-आवाज़ और-आवाज़ और-आवाज़ और-आवाज़
 H0006 H1992 H8342 H8057 H2860 H3618

קוֹל וְקוֹל וְקוֹל וְקוֹל וְקוֹל וְקוֹל וְקוֹל וְקוֹל וְקוֹל וְקוֹל
 आवाज़ चक्की-की और-रोशनी दीपक-की
 H0216 H7347

मैं उन स्थानों पर सुख और आनन्द की किलोलों को बन्द कर दूँगा। वहाँ भविष्य में दुल्हा—दुल्हनों की उमंग भरी हँसी ठिठोली न होगी। मैं चक्की चलाने लोगों के गीतों को दूर कर दूँगा। मैं दीपकों का उजाला खत्म करूँगा।

11
 וְהִיְתָה וְהִיְתָה כָּל-הָאָרֶץ הַזֹּאת לְחָרָבָה לְשָׂמָה וְעִבְרָו וְהַגּוֹיִם הָאֵלֶּה אֶת-מֶלֶךְ
 और-होगी सब-पृथ्वी यह खंडहर-को वीरानी-को और-सेवा-करेंगे जातियाँ ये को-राजा-की
 H1961 H3605 H0776 H2063 H2723 H8047 H5647 H0428 H0853 H4428

בְּבָבֶל שְׁבַעִים שָׁנָה:
 बाबेल-के सत्तर वर्ष
 H0894 H7657 H8141

वह सारा क्षेत्र ही सूनी मरुभूमि होगा। वे सारे लोग बाबुल के राजा के सत्तर वर्ष तक दास होंगे।

12
 וְהָיָה וְהָיָה כְּמִלְאוֹת שְׁבַעִים שָׁנָה אֶפְקָד עַל-מֶלֶךְ-בְּבָבֶל וְעַל-הַגּוֹי וְהָיוּ
 और-होगा पूरे-होने-पर सत्तर वर्ष दण्ड-दूँगा को-राजा-बाबेल-के और-को-जाति-को उस
 H1961 H4390 H7657 H8141 H4428 H0894 H1931

וְהָיָה וְהָיָה אֶת-עֲוֹנֵם וְעַל-אֶרֶץ כְּשָׂדִים וְשָׂמָה אֶת-לְשָׂמוֹת
 यहोवा-का को-को-और-को-और-को-और-बनाऊँगा उसे वीरानियों-को
 H3068 H0853 H5771 H0776 H3778 H0853

עוֹלָם:
 सदा-के
 H5769

“किन्तु जब सत्तर वर्ष बीत जाएंगे तो मैं बाबुल के राजा को दण्ड दूँगा। मैं बाबुल राष्ट्र को दण्ड दूँगा।” यह सन्देश यहोवा का है। “मैं कसदियों के देश को उनके पाप के लिये दण्ड दूँगा। मैं उस देश को सदैव के लिये मरुभूमि बनाऊँगा।

13
 וְהָיָה וְהָיָה (וְהָבֵאתִי) עַל-הָאָרֶץ הַזֹּאת אֶת-כָּל-דְּבָרֵי אֲשֶׁר-בִּלְבָבִי
 और-लाऊँगा और-लाऊँगा और-लाऊँगा पर-पृथ्वी उस को-सब-मेरे-वचनों-को जो-बोला-है
 H0935 H0935 H0935 H0776 H1931 H0853 H3605 H1697 H1696

עַל-הָאָרֶץ הַזֹּאת כָּל-הַכְּתוּב בְּסֵפֶר הַזֶּה אֶת-כָּל-עֲלֵיָהּ
 के-विरुद्ध-के-विरुद्ध जो-लिखा-है जो-लिखा-है इस जो-भविष्यवाणी-की-है-यिर्मयाह-ने-बोला-है
 H3605 H0853 H3789 H2088 H5012 H3414

כָּל-הַגּוֹיִם:
 जातियों-के सब-
 H3605

मैंने कहा है कि बाबुल पर अनेक विपत्तियाँ आएंगी। वे सभी चीज़ें घटित होंगी। यिर्मयाह ने उन विदेशी राज्यों के बारे में उपदेश दिया और वे सभी चेतावनियाँ इस पुस्तक में लिखी हैं।

14
 כִּי עֲבָדוּ-בָם גַּם-הַמֶּלֶךְ וְהַמְּלָכִים וְהַמְּלָכִים וְהַמְּלָכִים וְהַמְּלָכִים וְהַמְּלָכִים וְהַמְּלָכִים וְהַמְּלָכִים וְהַמְּלָכִים
 क्योंकि सेवा-करेंगे-भी-वे और-राजा बड़े और-राजा बड़ी जातियाँ
 H5647 H1571 H1992 H4428

כְּפִעֲלָם וְכַמְעֲשָׂה וְיָדִיהֶם:
 उनके-कार्य-के-अनुसार और-कार्य-के-अनुसार उनके-हार्थों-के
 H6467 H4639 H3027

हाँ बाबुल के लोगों को कई राष्ट्रों और कई बड़े राजाओं की सेवा करनी पड़ेगी। मैं उन्हें उसके लिए उनको उचित दण्ड दूँगा जो सब वे करेंगे।”

15 כִּי כֹה אָמַר יְהוָה אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל אֵלַי קַח אֶת-כּוֹס הַחֲמָה הַיּוֹן הַיּוֹן הַחֲמָה
 क्योंकि यों कहा-है यहोवा-ने एलीहीम इस्राएल-के मुझसे ले को- प्याला दाखमधु-की क्रोध-की
 H2534 H3196 H0853 H3947 H0413 H3478 H0430 H3068 H0559 H3541

הָאֵת מִיָּדִי וְהִשְׁקִיתָהּ אֶתֹּו אֶתֹּו כָּל־ הַגּוֹיִם אֲשֶׁר אֲנֹכִי שָׁלַח אוֹתָהּ
 यह मेरे-हाथ-से और-पिला और-उसे को- सब- जातियों-को जिनके-पास मैं भेजता-हूँ तुझे
 H0853 H7971 H0595 H3605 H0853 H0853 H8248 H3027 H2063

אֲלֵיהֶם:
 उनके-पास
 H0413

इस्राएल के परमेश्वर यहोवा ने यह सब मुझसे कहा, "यिर्मयाह, यह दाखमधु का प्याला मेरे हाथों से लो। यह मेरे क्रोध का दाखमधु है। मैं तुम्हें विभिन्न राष्ट्रों में भेज रहा हूँ। उन सभी राष्ट्रों को इस प्याले से पिलाओं।

16 וְשָׂאוּ וְהִתְגַּעְשׁוּ וְהִתְהַלְּלוּ מִפְּנֵי הַחֶרֶב אֲשֶׁר אֲנֹכִי שָׁלַח בֵּינָתָם:
 और-पिएँ और-डगमगाएँ और-पागल-हो-जाएँ के-कारण तलवार-के जिसे मैं भेजता-हूँ उनके-बीच
 H0996 H7971 H0595 H2719 H6440 H1607 H8354

वे इस दाखमधु को पीएंगे। तब वे उलटी करेंगे और पागलों सा व्यवहार करेंगे। वे यह उन तलवारों के कारण ऐसा करेंगे जिन्हें मैं उनके विरुद्ध शीघ्र भेजूंगा।"

17 וְאָקַח אֶת־כּוֹס הַכּוֹס אֶת־מִיַּד יְהוָה וְאֶשְׂרָהּ בְּיָדֵי יְהוָה
 और-लिया प्याला को- हाथ-से यहोवा-के और-पिलाया यहोवा-के भेजा-था जिनके-पास- जातियों-को सब- को- और-पिलाया
 H7971 H3605 H0853 H8248 H3068 H3027 H0853 H3947

וְהוּא אֲלֵיהֶם:
 यहोवा-ने उनके-पास
 H0413 H3068

अतः मैंने यहोवा के हाथ से प्याला लिया। मैं उन राष्ट्रों में गया और उन लोगों को उस प्याले से पिलाया।

18 אֶת־יְרוּשָׁלַם וְאֶת־עָרֵי יְהוּדָה וְאֶת־מְלָכֵיהָ אֶת־שָׂרֵיהָ
 को- यरूशलेम और-को- नगरों-को और-को- यहुदा-के राजाओं-को उसके-सरदारों-को
 H8269 H0853 H4428 H0853 H3063 H0853 H3389 H0853
 לָתֵת לָהֶם לְחָרְבָה לְשָׂמָה לְשָׂרְקָה וּלְקַלְלָהּ כִּי־וַהּ הַזֶּה:
 देने-के-लिए उन्हें खंडहर-को वीरानी-को सीटी-को और-शाप-को इस दिन-जैसे
 H2088 H3117 H7045 H8322 H8047 H2723 H0853 H5414

मैंने इस दाखमधु को यरूशलेम और यहुदा के लोगों के लिये ढाला। मैंने यहुदा के राजाओं और प्रमुखों को इस प्याले से पिलाया। मैंने यह इसलिये किया कि वे सूनी मरूभूमि बन जायें। मैंने यह इसलिये किया कि यह स्थान इतनी बुरी तरह से नष्ट हो जाये कि लोग इसके बारे में सीटी बजाएँ और इस स्थान को अभिशाप दें और यह हुआ, यहुदा अब उसी तरह का है।

19 אֶת־פְּרָעוּת מְלָכֵיהָ מִצְרַיִם וְאֶת־עַבְדֵי וְאֶת־כָּל־שָׂרָיו
 को- फिरीन राजा-के मिस्र-के और-को- और-को- उसके-दासों-को और-को- उसके-सरदारों-को और-को- सब-
 H3605 H0853 H8269 H0853 H5650 H0853 H4714 H4428 H6547 H0853

עָמוֹ:
 उसकी-प्रजा-को

मैंने मिस्र के राजा फिरीन को भी प्याले से पिलाया। मैंने उसके अधिकारियों, उसके बड़े प्रमुखों और उसके सभी लोगों को यहोवा के क्रोध के प्याले से पिलाया।

20 וְאֶת־כָּל־הָעָרִים וְאֶת־כָּל־מְלָכֵיהֶן וְאֶת־כָּל־בְּנֵי אֶרֶץ מִצְרָיִם
 और-को- सब- मिश्रित-लोगों-को और-को- सब- राजाओं-को सब- देश-के देश-के
 H4428 H3605 H0853 H5780 H0776 H4428 H3605 H0853 H3605 H0853

אֶרֶץ מִצְרָיִם וְאֶת־כָּל־אֲשֶׁר־לָהֶם פְּלִשְׁתִּים וְאֶת־עַקְרוֹן וְאֶת־שָׂרָיִת וְאֶת־אֲשֶׁדּוֹד:
 देश-के अशकेलोन और-को- अज्जा और-को- पलिशितियों-के अशकेलोन और-को- एक्रोन और-को- बचे-हुओं-को अशदोद-के
 H0795 H7611 H0853 H6138 H0853 H5804 H0853 H0831 H0853 H6430 H0776

31 בא שְׁאוֹן עַד- קָצָה הָאָרֶץ כִּי רִיב לִיהוָה בְּנוֹיָם נִשְׁפָּט הוּא 31
 आया-है शोर तक- छोर पृथ्वी-के क्योंकि विवाद यहोवा-को जातियों-के-साथ न्याय-करता-है वह
 H0935 H7588 H5704 H0776 H7379 H3068 H1931 H1899

לְכֹל- בְּשָׂר הַרְשָׁעִים נָתַנָּם לַחֲרֹב נָא- יְהוָה: ס
 सब- शरीर-के-साथ दुष्टों-को दे-दिया-है-उन्हें तलवार-को वचन- यहोवा-का
 H3605 H1320 H7563 H5414 H2719 H5002 H3068

वह चिल्लाहट पृथ्वी के सभी लोगों तक जाती है। यह चिल्लाहट किस बात के लिये है यहोवा सभी राष्ट्रों के लोगों को दण्ड दे रहा है। यहोवा ने अपने तर्कपूर्ण निर्णय लोगों के विरुद्ध दिये। उसने लोगों के साथ न्याय किया और वह बुरे लोगों को तलवार के घाट उतार रहा है।" यह सन्देश यहोवा का है।

32 כָּה אָמַר יְהוָה צְבָאוֹת הִנֵּה רָעָה יִצְאָת מִנוּי אֶל- גְּדוֹל וְסַעַר גּוֹי 32
 यों कहता-है यहोवा सेनाओं-का देखो विपत्ति निकलती-है जाति-से जाति बड़ा और-बवंडर जाति
 H3541 H0559 H3068 H2009 H3318 H0413

יֵעוֹר מִיַּרְכְּתֵי- אֲרָץ: יֵעוֹר
 उठाया-जाएगा कोनों-से- पृथ्वी-के
 H5782 H3411 H0776

सर्वशक्तिमान यहोवा यह कहता है: "एक देश से दूसरे देश तक शीघ्र ही बरबादी आएगी! वह शक्तिशाली आँधी की तरह पृथ्वी के सभी अति दूर के देशों में आएगी!"

33 וְהָיוּ קָלְלִי יְהוָה בְּיוֹם הַחֹוּא מִקָּצָה הָאָרֶץ וְעַד- לֹא הָאָרֶץ קָצָה 33
 और-होंगे मारे-गए यहोवा-के दिन-में उस से-छोर पृथ्वी-के और-तक- नहीं पृथ्वी-के
 H1961 H3068 H3117 H1931 H0776 H5704 H0776 H3808

וְיִסְפְּדוּ וְלֹא יֵאָסְפוּ וְלֹא יִקְבְּרוּ לְדָמֹן עַל- פְּנֵי הָאָרֶץ
 शोक-मनाया-जाएगा और-नहीं और-नहीं दफनाए-जाएंगे और-नहीं गोबर-की-तरह पर- चेहरे भूमि-के
 H5594 H3808 H0622 H3808 H6912 H1828 H6440 H0127

יְהִיוּ: הֵיוּ
 होंगे
 H1961

उन लोगों के शव देश के एक सिरे से दूसरे सिरे को पहुँचेंगे। कोई भी उन मरों के लिये नहीं रोएगा। कोई भी यहोवा द्वारा मारे गये उनके शवों को इकट्ठा नहीं करेगा और दफनायेगा नहीं। वे गोबर की तरह जमीन पर पड़े छोड़ दिये जाएंगे।

34 הַיְלִילוּ הָרָעִים וְזַעֲקוּ וְהַתְּפִלְשׁוּ אֲדִירֵי הַצָּאן כִּי- מְלֹאן יְמִיָּם לְשֹׁבוֹת 34
 हाय-करो चरवाहो और-चिल्लाओ और-लोटो शक्तिशाली भेड़ों-के क्योंकि- पूरे-हुए-हैं तुम्हारे-दिन वध-के-लिए
 H3213 H2199 H6428 H0117 H6629 H4390 H3117 H2873

וְתַפְצוּתֵיכֶם וְנִפְלְתֶם כְּכִלֵּי קָמָרָה:
 और-तुम्हारा-तितर-बितर-होना और-गिरोगे जैसे-बर्तन कीमती
 H8600 H5307 H3627

गडरियों (प्रमुखों), तुम्हें भेड़ों (लोगों) को राह दिखानी चाहिये। बड़े प्रमुखों, तुम जोर से चिल्लाना आरम्भ करो। भेड़ों (लोगों) के प्रमुखों, पीड़ा से तड़पते हुए जमीन पर लेटो। क्यों क्योंकि अब तुम्हारे मृत्यु के घाट उतारे जाने का समय आ गया है। मैं तुम्हारी भेड़ों को बिखेरूंगा। वे टूटे घड़े के ठीकरों की तरह चारों ओर बिखेरेंगे।

35 וְאָבַד מְנוֹס מִן- הָרָעִים וּפְלִיטָה מֵאֲדִירֵי הַצָּאן: 35
 और-नहीं-रहेगा शरण और-नहीं-रहेगा और-बचाव शक्तिशालियों-से भेड़ों-के
 H0006 H4498 H6413 H0117 H6629

गडेरियों (प्रमुखों) के छिपने के लिये कोई स्थान नहीं होगा। वे प्रमुख बचकर नहीं निकल पाएंगे।

את יהוה שרר כי הגאון אדירי ויללת הרעים צעקת קול 36
 को- यहोवा उजाड़-रहा-है क्योंकि- भेड़ों-के शक्तिशालियों-की और-हाय चरवाहों-की चीख-की आवाज़
[H0853](#) [H3068](#) [H7703](#) [H6629](#) [H0117](#) [H3215](#) [H6818](#)

מרעיתם:
 उनकी-चराई-को
[H4830](#)

मैं गडेरियों (प्रमुखों) का शोर मचाना सुन रहा हूँ। मैं भेड़ों (लोगों) के प्रमुखों का रोना सुन रहा हूँ। यहोवा उनकी चरागाह (देश) को नष्ट कर रहा है।

יהוה אף קרון מפני השלום נאות ונדמו 37
 यहोवा-के क्रोध- जलन के-कारण शान्ति-की चराइयाँ और-शान्त-कर-दी-गई-हैं
[H3068](#) [H0639](#) [H2740](#) [H6440](#) [H7965](#) [H4999](#)

वे शान्त चरागाहें सूनी मरूभूमि सी हैं। यह हुआ, क्योंकि यहोवा बहुत क्रोधित है।

קרון מפני לשמה ארצם היתה כי סבו ככפיר עזב 38
 जलन के-कारण वीरानी-को उनकी-भूमि हो-गई-है क्योंकि- अपनी-माँद जवान-शेर-की-तरह छोड़-दिया-है
[H2740](#) [H6440](#) [H8047](#) [H0776](#) [H1961](#) [H5520](#)

פ : אפו קרון ומפני היותה
 — उसके-क्रोध-के जलन और-के-कारण अत्याचारी-के
[H0639](#) [H2740](#) [H6440](#) [H3238](#)

यहोवा अपनी माद छोड़ते हुए सिंह की तरह खतरनाक है। यहोवा क्रोधित है! यहोवा का क्रोध उन लोगों को चोट पहुँचाएगा। उनका देश सूनी मरूभूमि बन जाएगा।